



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 380]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25, 1982/भाद्र 3, 1904

No. 380]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 25, 1982/BHADRA 3, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paglog is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1982

का. आ. 616(अ) :—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तांबा (घरेलू प्रकार के पी. वी. सी. और वी. आई. आर. तारों के विनिर्माण में उपयोग का प्रतिषेध) आदेश, 1978 का और संशोधन करने के लिए निम्न-लिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम तांबा (घरेलू प्रकार के पी. वी. सी. और वी. आई. आर. तारों के विनिर्माण में उपयोग का प्रतिषेध) संशोधन आदेश, 1982 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. तांबा (घरेलू प्रकार के पी. वी. सी. और वी. आई. आर. तारों के विनिर्माण में उपयोग का प्रतिषेध) आदेश, 1978 के खण्ड 3 के उप-खण्ड (2) (क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

629 GI/82

“(क) ऐसे उपक्रमों द्वारा जिसके विनिर्माण संयंत्र और मशीनरी में बीस लाख रुपये से अधिक नहीं है, घरेलू प्रकार के पी. वी. सी. और वी. आई. आर. तारों के विनिर्माण के लिए ऐसे विनिर्माण में ; या”

[फाइल सं. 4(4)/76-ई. आई., आई. एन. डी.]

रा. क. भार्गव, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—तांबा (घरेलू प्रकार के पी. वी. सी. और वी. आई. आर. तारों के विनिर्माण में उपयोग का प्रतिषेध) आदेश, 1978 आदेश सं. 444(अ), तारीख 15 जुलाई, 1978 द्वारा प्रकाशित किया गया था। तत्पश्चात् आदेश सं. 732(अ), तारीख 26 दिसम्बर, 1978 द्वारा उसका संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 25th August, 1982

S.O. 616(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Copper (Prohibition of Use in the Manufacture of PVC and VIR Wires of Domestic Type) Order, 1978, namely :—

(1)

1. (1) This Order may be called the Copper (Prohibition of Use in the Manufacture of PVC and VIR Wires of Domestic Type) Amendment Order, 1982.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. For sub-clause (2)(a) of clause 3 of the Copper (Prohibition of Use in the Manufacture of PVC and VIR Wires of Domestic Type) Order, 1978, the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(a) in the manufacture of PVC and VIR wires of domestic type by undertakings having investment not exceeding twenty lakhs of rupees in plant and machinery for such manufacture ; or"

[File No. 4(4)/76-EIND]

R. K. BHARGAVA, Jr. Secy.

NOTE

The Copper (Prohibition of Use in the Manufacture of PVC and VIR Wires of Domestic Type) Order, 1978, was published vide Order No. S.O. 444(E), dated the 13th July, 1978. It was subsequently amended vide Order No. S.O. 732(E) dated the 26th December, 1978.